

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-09022025-260863
SG-DL-E-09022025-260863असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44]	दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 7, 2025/माघ 18, 1946	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 381
No. 44]	DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 7, 2025/MAGHA 18, 1946	[N. C. T. D. No. 381

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIमहिला एवं बाल विकास विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 3 फरवरी, 2025

फा. सं. 08 (89)/प्रशा./महि. एवं बा. विका./नैदानिक मनोविज्ञानी भर्ती नियम/2022/18566.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना संख्या फा0 27/59—एचआईएम (i) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार की दिनांक 30.05.1984 की अधिसूचना संख्या फा0 2(65)/82—एस0II के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श के पश्चात्, एतद् द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में नैदानिक मनोविज्ञानी के पद हेतु भर्ती नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ:—(i) इन नियमों को 'महिला एवं बाल विकास विभाग, नैदानिक मनोविज्ञानी भर्ती नियमावली, 2024' कहा जाए।
(ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं इत्यादि:—उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यता एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता:—**वह व्यक्ति,

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा
- (ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति:—**जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध को छूट दे सकती है।6. **बचाव:—**इन नियमों में केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।**अनुसूची**

1.	पदनाम	:	नैदानिक मनोविज्ञानी
2.	पदों की संख्या	:	01* (2024) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा, अलिपिकीय, अराजपत्रित, समूह—ख
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर—6 (रुपये 35400—112400 /—)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिलनीय।) निर्णायक विवरण : आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा विज्ञापित होगी।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यता	:	अनिवार्य : (i) किसी मान्यता-प्राप्त वि'वविद्यालय या संस्थान से मनोविज्ञान या नैदानिक मनोविज्ञान या अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान में निष्णात उपाधि; (ii) किसी मान्यता-प्राप्त वि'वविद्यालय या संस्थान से नैदानिक मनोविज्ञान या चिकित्सा तथा सामाजिक मनोविज्ञान (दो वर्ष का पाठ्यक्रम) में दर्शन'गास्त्र में निष्णात; तथा (iii) भारतीय पुनर्वास परिषद् (आरसीआई) के साथ पंजीकृत होना चाहिए। टीप 1 : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में, योग्यताएं कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं। टीप 2 : यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों से उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यता (योग्यताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	आयु : लागू नहीं शैक्षिक योग्यताएं : लागू नहीं

9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	02 वर्ष सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए। टीप : सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविनिर्धारित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूर्ण करने हेतु कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रेरण प्रशिक्षण करना अनिवार्य होगा।
10.	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	प्रतिनियुक्ति अल्पकालिक संविदा सहित, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) : केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेशों/मान्यता-प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/विश्वविद्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/वैधानिक या स्वायत्त संगठनों के अंतर्गत अधिकारी : (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारी; अथवा (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतनमान के स्तर-5 (7वें सीपीसी के अनुसार), रुपये 29200-92300/-) में नियमित आधार पर उनकी नियुक्ति के पश्चात् प्रदान की गई ग्रेड में 06 वर्षों की सेवा सहित या समकक्ष; अथवा (ख) कॉलम सं0 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव रखने वाले। टीप : प्रतिनियुक्ति की अवधि में केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?	: <u>विभागीय पदोन्नति समिति</u> 1. लागू नहीं (अध्यक्ष) 2. लागू नहीं (सदस्य) 3. लागू नहीं (सदस्य) <u>विभागीय स्थायीकरण समिति</u> 1. अपर मुख्य सचिव (वित्त)/प्रधान सचिव (वित्त) — अध्यक्ष 2. संबंधित प्रशासनिक सचिव — सदस्य 3. विशेष/अपर सचिव (सेवाएं) — सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	: संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
मिताली नामचूम, निदेशक

DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 3rd February, 2025

F. No. 08(89)/Admn/WCD/RR for Clinical Psychologist/2022/18566.—In exercise of the powers conferred by the provision to article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, notification number F-27/59-Him. (i), dated the 13th July, 1959, and in Supersession of this Government's Notification No. F. 2(65)/82-S.II dated 30.05.1984, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi after consultation with Union Public Service Commission, is pleased to make recruitment rules for the post of Clinical Psychologist in the Department of Women and Child Development, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement:**-(i) These rules may be called the Department of Women and Child Development, Clinical Psychologist, Recruitment Rules, 2024.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of Posts, Classification and level in the pay matrix:** - The number of the said posts, their classification and Level in the pay matrix attached there to shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, Qualifications, etc:** The method of recruitment to the said posts, age limit. Qualification and other matters connected there with, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification:**-No person-

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Powers to relax:**-Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by an order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving:**-Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of Posts	Classification	Level in the Pay matrix	Whether Selection or non-Selection posts	Age limit for direct Recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Clinical Psychologist	01 (2024) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Non-Ministerial Non-Gazetted Group-B	Level-6 (Rs. 35400-112400) in the Pay Matrix	Not Applicable	Not exceeding 30 Years. (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government)	Qualification (i) Masters Degree in Psychology or Clinical Psychology or Applied Psychology from a recognised University institute; (ii) Master of Philosophy in Clinical Psychology or Medical and Social Psychology (two years course) from a recognised University or Institute; and (iii) Must be registered with the Rehabilitation Council of India (RCI). Note 1: Qualifications are

					Crucial description: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Competent Authority.	relaxable at the description of the U.P.S.C, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the description of the U.P.S.C, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Schedules Castes or Schedules Tribes if at any stage of selection the U.P.S.C, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities, possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.
--	--	--	--	--	--	---

Whether age and Education qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotes.	Period of Probation if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Age: NA Edu. Qual: NA	2 Years for Direct Recruits, Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the competent authority.	Deputation including Short-Term Contract falling which by Direct Recruitment.	Deputation (Including Short Term Contract): Officers under the Central Government/State Government/ Union Territories /Recognised Research Institutions/ Universities/ Public Sector Undertaking/ Statuary or Autonomous Organisations. (a) (i) Holding analogous post on a regular basis in the parent cadre of department; or (ii) With Six (06) years service in the grade rendered after appointment	<u>Departmental Promotion Committee</u> 1. NA -(Chairman) 2. NA -(Member) 3. NA -(Member) <u>Departmental Confirmation Committee</u> 1. Addl. Chief Secretary (Finance)/Pr. Secretary(Finance) - Chairman 2. Administrative Secretary, concerned - Member 3. Special/ Addnl Secretary(Services) - Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary

			<p>thereto on a regular basis in Scale of Pay of Rs. 29200-92300/- in Level-5 (as per 7th CPC) or equivalent in the parent cadre or department; or</p> <p>(b) Possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruitment under Col. No.7.</p> <p>Note: The period of Deputation including the period of Deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be Not exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	--	--	--

By Order and in the Name of Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
MITALI NAMCHOON, Director